



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 723 राँची, गुरुवार, 12 सितम्बर, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

6 सितम्बर, 2019

संख्या-09/आरोप-चतरा-15/2016-3410-(09)/रा.,-- श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, कुन्दा, चतरा सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, राँची के विरुद्ध बिना राजस्व कागजातों की जाँच किये नीलांचल आयरन एण्ड कम्पनी के पक्ष में हस्तानांतरण/नामांतरण करने की अनुशंसा के आरोप में उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-111/स्था., दिनांक-21.02.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ है।

2. प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के संबंध में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-35/रा., दिनांक-03.01.2019 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य मांगा गया एवं इस हेतु स्मारित किया गया। उक्त के क्रम में उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-283/स्था., दिनांक-20.06.2019 द्वारा वांछित मंतव्य समर्पित किया गया।

3. श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों, श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण इस पर उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चन्द्र झा, से.नि.भा.प्र.से. विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
5. अपर समाहर्ता, चतरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, नामित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
